

Date: September 04, 2023

To,  
BSE Limited  
Phiroze Jeejeebhoy Towers,  
Dalal Street,  
Mumbai – 400 001

National Stock Exchange of India Ltd.  
Exchange Plaza, Plot no. C/1, G Block,  
Bandra – Kurla Complex, Bandra (E),  
Mumbai – 400 051

Scrip code-531599

Symbol: FDC

**Sub.: Public Notice Pertaining to Buyback of Equity Shares of FDC Limited (“the Company”).**

Dear Sir/Madam,

Please find enclosed the Newspaper Advertisement for Public Notice with respect to Buyback of equity shares of the Company, published on Monday, September 04, 2023 in the following newspapers:

Name of publication	Language	Edition
Business Standard	English	All editions
Business Standard	Hindi	All editions
Loksatta	Marathi	Aurangabad (Chhatrapati Sambhajinagar) edition

This will also be made available on the Company’s website at [www.fdcindia.com](http://www.fdcindia.com).

Kindly take the above on record.

Thanking you,

Yours sincerely,  
For FDC Limited

**Varsharani Katre**  
**Company Secretary & Compliance Officer**  
**M. No.: FCS-8948**

# CINELINE

CINELINE INDIA LIMITED

Registered Office: 2nd Floor, A&B Wing, Vilco Centre, Subhash Road, Opp. Garware, Vile Parle (East), Mumbai City, Maharashtra – 400 057,  
Tel: 91-22-35023666 / 35023777 Email: investor@cineline.co.in Website: www.movieimax.co.in  
Corporate Identity Number (CIN) : L92142MH2002PLC135964

# MOVIE MAX

## NOTICE OF THE 21ST ANNUAL GENERAL MEETING ("AGM") OF CINELINE INDIA LIMITED ("THE COMPANY"), TO BE HELD THROUGH VIDEO CONFERENCE ("VC") OR OTHER AUDIO-VISUAL MEANS ("OVAM") AND REMOTE E-VOTING FACILITY

NOTICE is hereby given that the 21st Annual General Meeting of the members of the Company is scheduled to be held on Wednesday, 27th September, 2023 at 11:00 A.M. through Video Conference ("VC") / Other Audio Visual Means ("OVAM") without physical presence of the members at a common venue, in compliance with the provisions of the Companies Act, 2013 and the rules made thereunder and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with all applicable circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") and the Securities and Exchange Board of India ("SEBI") in this regard, to transact the business as set out in the Notice convening the 21st AGM.

The electronic copies of the Notice of 21st AGM and Annual Report for FY 2022-23 will be sent to those shareholders whose email IDs are registered with the Company / Registrar and Share Transfer Agent ("RTA") / Depository Participants ("DP"). Shareholders may note that the Notice of 21st AGM and Annual Report for FY 2022-23 will also be made available on the Company's website at [www.movieimax.co.in](http://www.movieimax.co.in) website of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited at [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) and National Stock Exchange of India Limited at [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com)

Shareholders holding shares in physical mode can register / update their email ID by sending request at [investor@cineline.co.in](mailto:investor@cineline.co.in) or to the Company's Registrar and Share Transfer Agent Link Intime India Private Limited ("LIPL"), at [enotices@linkintime.co.in](mailto:enotices@linkintime.co.in) duly mentioning their Name, Folio No and Contact details. Shareholders holding shares in demat mode who have not registered their email addresses and mobile numbers with Depositories Participant (DP) are requested to register their email ID and mobile No with their DP. However for temporary purpose attending the 21st AGM such shareholders can furnish their email ID to the Company's Registrar and Share Transfer Agent Link Intime India Private Limited ("LIPL"), at [enotices@linkintime.co.in](mailto:enotices@linkintime.co.in) or Call +91 (022)49186000 or their Depository Participant to get their email addresses and mobile numbers registered.

The Company is providing remote e-voting facility ('remote e-voting') to all its members to cast their vote on all resolutions set out in the Notice of the 21st AGM. Additionally, the Company is providing the facility of voting through e-voting system during the AGM ('e-voting'). Detailed procedure for joining the AGM and remote e-voting/e-voting is provided in the Notice of 21st AGM. Members attending the AGM through VC/OVAM will be counted for the purpose of reckoning the quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013.

For Cineline India Limited

Sd/-

Mr. Rasesh B. Kanakia

Executive Director & Chairperson of the Company

(DIN: 00015857)

Place : Mumbai

Date : 04th September, 2023



## Pimpri Chinchwad Municipal Corporation, Pimpri, Pune – 411018

### CIVIL PROJECT DEPARTMENT

E-Tender Notice No. 39/03/2023-2024

#### Appointment of a Private Entity For Design, Built, Finance, Operate and Transfer of Multi-Level Parking Cum Commercial Development Facility in Pimpri Chinchwad.

PCMC intends to appoint a Private Entity for Design, Built, Finance, Operate and Transfer of Multi-Level Parking Cum Commercial Development Facility in Pimpri Chinchwad for following locations:

S. No.	Location	Reservation Number	Total Plot Area (Sq.m)	Type of Parking Proposed
1.	Old vegetable market near Pimpri flyover	136	5600	Ramp/ Mechanized
2.	Parking near Croma Showroom, Pimpri	117	2487.15	Ramp/ Mechanized
3.	Adjacent to Chinchwad railway station	186	3910.53	Ramp/ Mechanized

In that context, PCMC hereby invites interested agencies having experience as envisaged in the Request for Proposal (RFP) document to submit their proposal. Interested agencies can download the RFP document from the website [mahatenders.gov.in](http://mahatenders.gov.in)

In case of any technical problem related to the tender submission, the same can be referred to the NIC email support at [eproc@nic.in](mailto:eproc@nic.in) or on Telephone Numbers 0120-4200462, 0120-4001002, 0120-4001005, 0120-627787.

Sd/-  
(Pramad Ombhase)

Joint City Engineer,  
Pimpri Chinchwad Municipal Corporation,  
Pimpri, Pune – 411018.

Advt No. 273  
No.Civil/14/WS/273/2023  
Date-01/09/2023

#### PUBLIC NOTICE FOR THE ATTENTION OF THE PUBLIC SHAREHOLDERS OF



### FDC LIMITED

(CIN: L24239MH1940PLC003176)  
Registered Office: B-6, M.I.D.C. Industrial Estate, Wajuli - 431 150, Dist. Aurangabad, Maharashtra  
Tel: +91 240 255 4407; Fax: +91 240 255 4299  
Correspondence Address: C-3 SKYVISTAS, Near Versova Police Station, 106A, J. P. Road, Andheri (West), Mumbai - 400 063.  
Tel: +91 22 2673 9215 | Website: [www.fdcindia.com](http://www.fdcindia.com), Email: [varsharani.katre@fdcindia.com](mailto:varsharani.katre@fdcindia.com)  
Contact Person: Ms. Varsharani Katre, Company Secretary and Compliance Officer

THIS PUBLIC NOTICE IS BEING ISSUED BY FDC LIMITED ("THE COMPANY"), TO THE ELIGIBLE SHAREHOLDERS HOLDING EQUITY SHARES AS ON AUGUST 25, 2023 ("RECORD DATE"), FOR THE BUYBACK OF UPTO 31,00,000 FULLY PAID-UP EQUITY SHARES BY WAY OF A TENDER OFFER THROUGH THE STOCK EXCHANGE MECHANISM ("TENDER OFFER"), FOR CASH AT A PRICE OF RS. 500 (RUPEES FIVE HUNDRED ONLY) ("BUYBACK PRICE") PER EQUITY SHARE FOR AN AGGREGATE AMOUNT NOT EXCEEDING RS. 155,00,00,000 (RUPEES ONE HUNDRED FIFTY FIVE CRORE ONLY) ("BUYBACK SIZE") IN ACCORDANCE WITH THE SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (BUYBACK OF SECURITIES) REGULATIONS, 2018, AS AMENDED ("SEBI BUYBACK REGULATIONS").

This Public Notice is to be read together with:

- the Public Announcement in connection with the Buyback published on August 11, 2023 in the following Newspapers: i) Business Standard (English - All editions); ii) Business Standard (Hindi - All editions); and iii) LokSatta (Marathi - Chatrapati Sambhaji Nagar Edition) ("Public Announcement");
- the Letter of Offer dated August 28, 2023 in connection with the Buyback ("Letter of Offer"); and
- the Offer Opening Advertisement in connection with the Buyback of Equity Shares published on August 29, 2023 in the following newspapers: i) Business Standard (English - all editions); ii) Business Standard (Hindi - all editions); and iii) LokSatta (Marathi - Chatrapati Sambhaji Nagar Edition) ("Offer Opening Advertisement").

The dispatch of the Letter of Offer to the Eligible Shareholders of the Company holding Equity Shares on the Record Date i.e., Friday, August 25, 2023 has been completed by August 29, 2023 through electronic mode to the shareholders whose e-mail ids are available with the Company and through speed post / registered post at the address registered in India for all the remaining shareholders. In the event of accidental omission to dispatch the Letter of Offer or non-receipt of the Letter of Offer by any Eligible Shareholder, they may obtain a copy of Letter of Offer by writing to the Registrar to the Buyback, Link Intime India Private Limited, at their address 'C - 101, 1st Floor, 247 Park, L B S Marg, Vikhroli West, Mumbai - 400 083, Maharashtra', clearly marking the envelope "FDC Limited - Buyback 2023".

The shareholder can participate / tender their Equity Shares of the Company ("Equity Shares") under the Buyback Offer in accordance with the SEBI Buyback Regulations. Please note the following in respect of the Buyback Offer:

Sl. No.	Date of opening of the Buy-back Offer Period	Thursday, August 31, 2023
1	Date of opening of the Buy-back Offer Period	Thursday, August 31, 2023
2	Date of closing of the Buy-back Offer Period	Wednesday, September 06, 2023
3	Last date and time for receipt of the completed Tender Forms and other specified documents including physical share certificates by the Registrar to the Buyback (APPLICABLE ONLY FOR SHAREHOLDERS TENDERING SHARES IN PHYSICAL MODE)	Friday, September 08, 2023
4	Last date of settlement of bids on the Stock Exchange	Wednesday, September 13, 2023

The Eligible Shareholders may obtain copies of Letter of Offer from the website of the Company at ([www.fdcindia.com](http://www.fdcindia.com)), Securities and Exchange Board of India at [www.sebi.gov.in](http://www.sebi.gov.in), the BSE Limited ("BSE") at ([www.bseindia.com](http://www.bseindia.com)) or National Stock Exchange of India Limited ("NSE") at ([www.nseindia.com](http://www.nseindia.com)), or from the website of the Registrar to the Buyback at [www.linkintime.co.in](http://www.linkintime.co.in) or the Manager to the Buyback at ([www.sundaecapital.com](http://www.sundaecapital.com)).

**FOR EQUITY SHARES HELD IN PHYSICAL FORM:** Before submitting the Form Acceptance-cum-Acknowledgment, to the Seller Member(s), the Eligible Shareholder must keep a set of (i) original share certificate(s) (ii) valid share transfer form(s) (i.e., form SH-4) duly filled and signed by the transferors (i.e., by all registered Eligible Shareholders in same order and as per the specimen signatures registered with the Company) and duly witnessed at the appropriate place authorizing the transfer in favour of the Company (iii) self-attested copy of the Eligible Shareholder's PAN Card (iv) the Tender Form duly signed (in case the Equity Shares are in joint names, the Tender Form must be signed by all Eligible Shareholders in the same order in which they hold the Equity Shares) and (v) any other relevant documents such as power of attorney, corporate authorization (including board resolution/specimen signature), notarized copy of death certificate and succession certificate or probated will, if the original shareholder has deceased, etc., as applicable. In addition, if the address of an Eligible Shareholder has undergone a change from the address registered in the Register of Members of the Company, such Eligible Shareholder would be required to submit a self-attested copy of address proof consisting of any one of the following documents: valid Aadhar Card, Voter Identity Card or Passport.

Please refer Clause 20 of the Letter of Offer ("Procedure for Tendering Equity Shares and Settlement") in relation to the detailed procedure for tendering their Equity Shares in the Offer and are required to adhere to and follow the procedure outlined therein.

Every person who desires to participate in the Buyback may do so pursuant to independent inquiry, investigation and analysis and shall not have any claim against the Company or the Manager to the Buyback or the Registrar to the Buyback or the Buyer Broker whatsoever by reason of any loss which may be suffered by such person consequent to or in connection with such Buyback and tender of equity shares through Acquisition Window Facility of NSE, the Designated Stock Exchange, otherwise whether by reason of anything stated or omitted to be stated herein or any other reason whatsoever.

This Public Notice is issued only for the purpose of informing the shareholders who have not received the Letter of Offer, due to failure delivery or postal delay, if any, or otherwise.

MANAGER TO THE BUYBACK	REGISTRAR TO THE OFFER AND INVESTOR SERVICE CENTRE
<p><b>SUNDAE</b></p> <p>Sundae Capital Advisors Private Limited 404, 4th floor, Vaibhav Chambers, Opp. Income Tax Office, Bandra Kuria Complex, Bandra (East), Mumbai - 400 051, Maharashtra, India Tel. No. +91 96 6785 9191 Email: <a href="mailto:fdc.buyback@sundaecapital.com">fdc.buyback@sundaecapital.com</a> Investor Grievance e-mail id: <a href="mailto:grievances.mb@sundaecapital.com">grievances.mb@sundaecapital.com</a> Website: <a href="http://www.sundaecapital.com">www.sundaecapital.com</a> SEBI Regn. No.: INM00012494 Validity Period: Permanent Contact Person: Anchal Lohia / Rajiv Sharma</p>	<p><b>LINKintime</b></p> <p>Link Intime India Private Limited C-101, 1st Floor, 247 Park, L.B.S. Marg, Vikhroli (West), Mumbai - 400 083, Maharashtra, India Tel. No.: +91 810 811 4949 Fax: +91 22 4918 6060 Email id: <a href="mailto:fdc.buyback2023@linkintime.co.in">fdc.buyback2023@linkintime.co.in</a> Website: <a href="http://www.linkintime.co.in">www.linkintime.co.in</a> SEBI Regn. No.: INR000004058 Validity Period: Permanent Contact Person: Mr. Sumeet Deshpande</p>

For and on behalf of the Board of Directors of FDC Limited

Sd/- Mohan Anand Chandavarkar Managing Director (DIN: 00043344)	Sd/- Ashok Anand Chandavarkar Executive Director (DIN: 00042719)	Sd/- Varsharani Katre Company Secretary & Compliance Officer FCS 8948
--	---	--

Place: Mumbai  
Date: Sep. 02, 2023

## TAMILNADU NEWSPRINT AND PAPERS LIMITED

CIN – L22121TN1979PLC007799  
Registered Office: 67, MOUNT ROAD, GUINDY, CHENNAI - 600 032.  
Phone: (91) (044) 22354415-17, 22301094-98, Fax: (044) 22350834 & 22350827  
Web: [www.tnpl.com](http://www.tnpl.com) Email: [invest\\_grievances@tnpl.co.in](mailto:invest_grievances@tnpl.co.in)

### 43<sup>RD</sup> ANNUAL GENERAL MEETING TO BE HELD OVER VIDEO CONFERENCE, RECORD DATE AND DIVIDEND INFORMATION

- AGM NOTICE**  
Notice is hereby given that the 43<sup>rd</sup> Annual General Meeting (AGM) of the company will be held through Video Conference (VC) / Other Audio Visual Means (OVAM) on Monday, the 25<sup>th</sup> September, 2023 at 12:00 Noon in compliance with the provisions of the Companies Act, 2013, MCA circular dated 13.01.2021 and SEBI circular dated 15.01.2021 to transact the business set out in the Notice convening the AGM.
- SERVICE OF DOCUMENTS**  
In compliance with the above MCA and SEBI circulars, electronic copy of the 43<sup>rd</sup> Annual Report for FY 2022-23 comprising the Notice of the 43<sup>rd</sup> AGM, Financial Statements, Board's Report, Auditor's Report and other documents required to be attached thereto has been sent to all the members whose email addresses are registered with the Depository Participants (DPs) / Registrar and Transfer Agent (RTA). These documents are also available on the Company's website [www.tnpl.com](http://www.tnpl.com) and on the websites of the Stock Exchanges i.e., BSE Limited ([www.bseindia.com](http://www.bseindia.com)) and National Stock Exchange of India Limited ([www.nseindia.com](http://www.nseindia.com)).
- MANNER OF REGISTERING / UPDATING EMAIL ADDRESS**  
Members are advised to register / update their email address and mobile number immediately, in case they have not done so earlier:
  - In case of shares held in demat mode, with their respective DPs.
  - In case of shares held in physical mode, by accessing the link <https://investors.cameoindia.com> or by email to the RTA at [investor@cameoindia.com](mailto:investor@cameoindia.com) with details of Folio number and attaching a self-attested copy of PAN card.
  - After due verification, the Company / RTA will send login credentials for attending the AGM and voting to the registered email address.
  - Any person who becomes a member of the company after despatch of the AGM Notice and holding shares as on the cut-off date may obtain the user Id and password in the manner provided in the AGM Notice.
- CLOSURE OF REGISTER OF MEMBERS**  
Notice is hereby given that pursuant to the provisions of Section 91 of the Companies Act, 2013 and Regulation 42 of SEBI Regulations, the Register of Members and Share Transfer Books of the company will remain closed from Tuesday, the 19<sup>th</sup> September, 2023 to Monday, the 25<sup>th</sup> September, 2023 (both days inclusive) for the purpose of AGM and payment of dividend for 2022-23, if declared
- E-VOTING.**  
The Company is providing the facility for its members to cast their votes in respect of all the items of business proposed for the 43<sup>rd</sup> AGM under any one of the options (a) remote e-voting facility (b) e-voting at AGM. For voting instructions, members may go through the voting process and instructions given in the Annual Report. Members may take specific note of following.
  - The cut-off date for determining the voting rights is Monday, the 18<sup>th</sup> September, 2023.
  - Only persons whose names are recorded in the Register of Members or in the Register of Beneficial owners maintained by the Depositories as on the cut-off date are entitled to vote under any of the voting options.
  - For those who have become members after the dispatch of the AGM Notice but before the date of AGM, the Company would be sending them the 43<sup>rd</sup> Annual Report to their registered email address as and when they become members and they can exercise their voting right in the same manner as above.
  - The remote e-voting will commence on Wednesday, the 20<sup>th</sup> September, 2023 at 9.00 a.m. (IST) and end on Sunday, the 24<sup>th</sup> September, 2023 at 5.00 p.m. (IST). The 'Remote e-Voting' module shall be disabled by NSDL for voting thereafter and Members will not be allowed to exercise 'Remote e-Voting' beyond the said date and time.
  - The members as on the cut-off date attending the AGM are entitled to exercise their voting right at the meeting through e-Voting, in case they have not already cast their vote by remote e-voting. No voting is permissible after the end of the AGM.
  - Members who have cast their votes by remote e-voting are also entitled to attend the AGM but they cannot cast their vote again at the AGM.
  - Website address of NSDL providing Remote e-Voting and e-Voting services: [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com).
  - Contact details in case of grievances pertaining to Remote e-Voting / e-Voting facility: Email id: [evoting@nsdl.co.in](mailto:evoting@nsdl.co.in) / 1800-222-9900
- DIVIDEND**  
The Board of Directors have recommended a dividend of Rs. 5/- per equity share for FY 2022-23. The cutoff date for the purposes of dividend for 2022-23 is 18<sup>th</sup> September, 2023. Members are advised to register their Bank a/c details with their respective DPs (in the case of demat holding) / RTA (in the case of physical holding). For shareholders who have not updated their bank account details, dividend warrants/ demand drafts/ cheques will be sent out to their registered addresses. As dividend income is taxable in the hands of shareholders, they are advised to register / furnish details of tax status / exemption as detailed in the AGM Notice.
- Members are advised to refer to the AGM Notice for full content and details. They may write / email to the Company for any clarification.
- SPEAKER REGISTRATION / QUERIES**  
Shareholders desiring to express their views/ ask questions during the meeting may register themselves as a speaker. Request for this may be made to [invest\\_grievances@tnpl.co.in](mailto:invest_grievances@tnpl.co.in) on or before 18<sup>th</sup> September 2023.  
Only those shareholders who have registered themselves as a speaker will be allowed to express their views or ask questions at the e-AGM. The Company reserves the right to restrict the number of questions and number of speakers depending upon the availability of time for conduct of the e-AGM.  
Shareholders who do not wish to speak during the AGM but have queries or views may send the same in advance to the company in the same manner stated above. Their queries will be replied suitably by the company through email.

For TAMIL NADU NEWSPRINT AND PAPERS LIMITED

Sd/-

ANURADHA PONRAJ  
COMPANY SECRETARY

Place : Chennai  
Date : 03.09.2023  
DIPR / 998 / Display / 2023

## RAIL VIKAS NIGAM LIMITED

(A Navratna CPSE)  
Registered Office: 1st Floor, August Kranti Bhawan, Bhikaji Cama Place, R. K. Puram, New Delhi, South Delhi - 110066. E-mail: [investors@rvnl.org](mailto:investors@rvnl.org)  
Website: [www.rvnl.org](http://www.rvnl.org) CIN: L74999DL2003G01186833  
Phone No.: 011-26783299, Fax: 011-26182957

### NOTICE OF 20TH ANNUAL GENERAL MEETING, BOOK CLOSURE, RECORD DATE AND INFORMATION ON E-VOTING

Notice is hereby given that the 20th Annual General Meeting (AGM) of the members of Rail Vikas Nigam Limited will be held on Wednesday, the 27th September 2023 at 11:30 A.M. (IST) through Video Conferencing ("VC") / Other Audio Visual Means ("OVAM") to transact the businesses as set forth in the Notice of the AGM. The Notice of AGM along with the Annual Report for the year ended as on 31st March, 2023 has been sent by email only to the members whose email addresses are registered with the Company/Depository Participant(s) in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and SEBI (LODR) Regulations, 2015 read with General Circular No. 10/2022 dated 28th December, 2022, issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA Circulars") and SEBI Circular No. SEBI/HO/CFD/POD-2/P/CIR/2023/4 dated January 05, 2023 ("collectively called Circulars").

Notice of the AGM and Annual Report are also available on the Company's Website: [www.rvnl.org](http://www.rvnl.org) under the 'INVESTOR' section and website of the stock exchanges i.e. BSE Limited & National Stock Exchange of India Limited on [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) and [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com). The Notice is also available on the website of Central Depository Services (India) Limited ("CDSL") on [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com)

Notice is also hereby given that Pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 and Regulation 42 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Thursday, 21 September, 2023 to Wednesday, 27 September, 2023 (both days inclusive). The Final Dividend as recommended by the Board of Directors, if declared at the AGM will be paid within 30 days from the conclusion of the AGM to those Members whose names appear in the Register of Members of the Company in respect of physical shares and in respect of dematerialized shares to the "beneficial owners" of the shares whose names appear in the Statement of Beneficial Ownership furnished by National Securities Depository Limited and Central Depository Services (India) Limited as at the ending of business hours on Wednesday, 20 September, 2023. Payment of Dividend will be subject to deduction of Tax at Source (TDS) at applicable rates. The details and documents for exemption from TDS are available on the company's website at [www.rvnl.org](http://www.rvnl.org) by 05:00 PM (IST) on or before Monday, 25 September 2023. For more details, please refer to the Notice of AGM.

In accordance with the Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 44 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015 and as per MCA Circular, the members are provided with the facility to cast their vote on all resolution set forth in the Notice of AGM using electronic voting system (remote e-voting and e-voting) provided by CDSL. Individual members holding securities in Demat mode are allowed to vote through their Demat Account maintained with their Depositories and Depository Participant(s).

- All the members are therefore informed that:
- The remote e-voting period will commence on Sunday, 24 September 2023 (09.00 AM IST) and ends on Tuesday, 26 September 2023 (05.00 PM IST). The remote e-voting shall be disabled by CDSL thereafter and the facility will be blocked forthwith.
  - The cut-off date for determining the eligibility to vote through remote e-voting or at the AGM will be Wednesday, 20 September, 2023. During remote e-voting period, shareholders of the company holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date i.e. Wednesday, 20 September 2023 may cast their vote electronically. Once the vote on a resolution is casted by a Member, the Member shall not be allowed to modify it subsequently.
  - Any person who has acquired shares and becomes Member of the Company after the Notice of AGM has been sent electronically but before the cut-off date of Wednesday, 20 September, 2023, may obtain their user ID and password from Company's RTA, (Alankit). Alternatively, shareholder/members may send a request to [www.evotingindia.com](mailto:www.evotingindia.com) for procuring user ID and password for e-voting by providing the documents mentioned in the Notice of AGM.
  - Those Members, who shall be present in the AGM through VC/OVAM facility and have not casted their votes on the resolutions through remote e-voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through e-voting system during the AGM. The members who have not casted their vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend/participate in the AGM through VC/OVAM but shall not be entitled to cast their vote again.
  - The Company has engaged the services of Central Depository Services (India) Limited ("CDSL") as the agency to provide e-voting facility. M/s Kumar Naresh Sinha & Associates, Company Secretaries has been appointed as Scrutinizer for conducting the E-Voting Process in a fair and transparent manner.
  - The results of voting on resolutions shall be declared within 48 hours of the conclusion of the AGM of the Company.
- Members are requested to read the instructions pertaining to e-voting as printed in the AGM Notice carefully. In case of any query, you may refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-voting user manual for Shareholders available at the download section of <https://www.cdsindia.com> or call on toll free No. 1800-22-55-33 or send a request to Mr. Rakesh Dalvi, Sr. Manager, Central Depository Services (India) Limited, ("CDSL") at [helpdesk.evoting@cdsindia.com](mailto:helpdesk.evoting@cdsindia.com).

For Rail Vikas Nigam Limited  
Sd/-  
Kalpana Dubey  
Company Secretary & Compliance Officer

Place : New Delhi  
Dated : 02.09.2023

# आदित्य एल1 से निजी क्षेत्र को दम

## 125 दिनों में सूर्य नमस्कार के लिए तैयार आदित्य एल1, चंद्रयान-3 की सफलता के बाद अगला कदम


शाइन जैकब

भारत अपने आदित्य एल1 मिशन के जरिये अगले 125 दिनों में सूर्य नमस्कार के लिए तैयार है। ऐसे में इस मिशन में योगदान देने वाली निजी क्षेत्र की कंपनियों इसकी सफलता को लेकर काफी उत्साहित दिख रही हैं। लार्सन एंड टुब्रो (एलएंडटी), एमटीएआर टेक्नोलॉजिज और अनंत टेक्नोलॉजिज सहित निजी क्षेत्र की कई कंपनियों ने सूर्य के लिए भारत के इस पहले ऑर्बिटर मिशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

आदित्य एल1 की सफलता से भारत के निजी क्षेत्र में निवेशकों की दिलचस्पी बढ़ेगी जिससे निवेश में भी इजाजा होने की उम्मीद है। भारतीय ताराभौतिकी संस्थान (आईआईए), विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी (ईएसए) जैसे कई संस्थानों ने भी भारत के इस ऐतिहासिक मिशन में योगदान दिया है।

भारत ने शनिवार सुबह 11:50 बजे श्रीहरिकोटा के लॉन्च पैड से आदित्य-एल1 को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान-3 की सॉफ्ट लैंडिंग के साथ ही भारत द्वारा इतिहास रचने के कुछ दिनों बाद ही आदित्य एल1 मिशन को प्रक्षेपित किया गया है। भारत चांद की सतह पर उतरने वाला चौथा और उसके दक्षिण ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला पहला देश बन चुका है। आदित्य एल1 को प्रक्षेपण के करीब एक घंटा और चार मिनट के बाद यानी लगभग 12:54 बजे पृथ्वी की महत्वपूर्ण कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित कर दिया गया। यह उसकी 125 दिनों की यात्रा की ओर उठाया गया पहला कदम था।

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के चेयरमैन एस सोमनाथ ने प्रक्षेपण की सफलता की घोषणा करते हुए कहा, 'बधाई है, आदित्य एल1 अंतरिक्ष यान को कक्षा में स्थापित कर दिया गया है।' यह भारतीय अंतरिक्ष परिवेश के लिए भी सफलता की एक अन्य कहानी होगी, जिसने चंद्रयान-3 मिशन की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।



इसरो ने आदित्य एल1 के पृथ्वी की कक्षा से बाहर जाने का चित्रांकन जारी किया

एलएंडटी डिफेंस के प्रमुख एवं कार्यकारी उपाध्यक्ष एटी रामचंद्रानी ने कहा, 'हमें भारत के पहले सौर मिशन आदित्य एल1 के लिए इसरो के साथ साझेदारी करने का अवसर मिला। एलएंडटी ने अपने इंजीनियरिंग कौशल, विनिर्माण कौशल एवं प्रशिक्षित कार्यबल के जरिये महत्वपूर्ण अंतरिक्ष ग्रेड हार्डवेयर का योगदान दिया है। हमें इसरो के साथ अपनी पांच दशक की साझेदारी पर गर्व है।'

आदित्य एल1 मिशन का नामकरण हिंदू देवता सूर्य के नाम पर किया गया है। इसे 4.4.4 मीटर लंबे ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान (पीएसएलवी) द्वारा प्रक्षेपित किया गया। पीएसएलवी अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत का एक विश्वसनीय प्रक्षेपण यान है। इसरो द्वारा किए गए 91 प्रक्षेपण में से 59 में पीएसएलवी रॉकेट का इस्तेमाल किया गया है। हालांकि इस मिशन की वास्तविक लागत का खुलासा नहीं किया

गया है, मगर सरकार ने इसके लिए करीब 4.8 करोड़ डॉलर आवंटित किए हैं। यह पहला अवसर था जब पीएसएलवी के ऊपरी चरण में दो क्रम में प्रज्वलन किया गया।

हैदराबाद की फर्म अनंत टेक्नोलॉजिज (एटीएल) ने आदित्य एल1 मिशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसे उपग्रह पणाली के डिजाइन, विकास एवं एकीकरण में व्यापक अनुभव है। एटीएल ने आदित्य एल1 के लिए कई एलिवोनिक्स पैकेज तैयार करते हुए उल्लेखनीय भूमिका निभाई है। इनमें ऑनबोर्ड कंप्यूटर, स्टार सेंसर, मॉड्यूलर ईईडी सिस्टम, पैलोड डीसी से डीसी कनवर्टर आदि शामिल हैं।

एटीएल ने पीएसएलवी-सी57 प्रक्षेपण यान के लिए एएसएआरवी, एनजीसीपी, क्वाड एसबीयू, ट्रेकिंग टॉसपोंडर एवं अन्य तमाम इंटरफेस इकाइयों सहित 48 सबसिस्टम की आपूर्ति की। उसने इन उपकरणों के लिए

असेंबली, एकीकरण एवं परीक्षण (एआईटी) का काम किया। पीएसएलवी-सी57 ऐसा सातवां प्रक्षेपण यान है जिसे एटीएल की टीम ने सफलतापूर्वक असेंबल किया है। कंपनी फिलहाल पांच अन्य प्रक्षेपण यान को असेंबल कर रही है।

एटीएल के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक सुब्बा राव पवुलुरी ने कहा, 'यह साझेदारी हमारे लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है क्योंकि हम अपनी तकनीकी उत्कृष्टता एवं विनिर्माण के जरिये भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम में मदद कर रहे हैं।'

एमटीएआर टेक्नोलॉजिज के प्रबंध निदेशक प्रभात श्रीनिवास रेड्डी ने कहा, 'भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र में हासिल की गई जबरदस्त वृद्धि इसरो के सभी वैज्ञानिकों की कड़ी मेहनत का परिणाम है। एमटीएआर को इसरो के सभी प्रक्षेपण में उल्लेखनीय योगदान करने पर गर्व है। हमने मिशन के लिए उपयोग किए जाने वाले पीएसएलवी-सी57 प्रक्षेपण यान के लिए विकास इंजन, इलेक्ट्रो-न्यूमेटिक मॉड्यूल, वाल्व, सुरक्षा कप्लर्स, नोज कोन आदि प्रमुख प्रणालियों की आपूर्ति की है।'

आदित्य एल1 मिशन के साथ ही इसरो उन देशों की जमात में शामिल हो गया है जहां की अंतरिक्ष एजेंसियों ने सूर्य के अध्ययन के लिए एक अलग मिशन भेजा है। इनमें अमेरिका, जापान, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी (ईएसए) और जर्मनी शामिल हैं। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने 2021 में सूर्य के करीब 75 लाख किलोमीटर दूर किसी मानव निर्मित वस्तु को भेजकर इतिहास रचा था।

इंडियन स्पेस एसोसिएशन (आईएसपीए) के महानिदेशक एके भट्ट ने कहा, 'यह चंद्रयान-3 मिशन के बाद एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। यह भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए एक प्रमुख पड़ाव है। इससे न केवल अंतरिक्ष अन्वेषण में भारत की क्षमताओं की पुष्टि होती है बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सहयोग और वैश्विक अंतरिक्ष उद्योग में योगदान के लिए हमारे निजी क्षेत्र की क्षमता में भरपूर पैदा होगा। इन सफलताओं से हमारी निजी अंतरिक्ष कंपनियों में निवेश के अवसर पैदा होंगे।'

## महंगाई दुनिया के लिए बड़ी चुनौती: प्रधानमंत्री

पुष्ट 1 का शेष

ऊर्जा बदलाव पर मोदी ने कहा, 'हमारा सिद्धांत सरल है - विविधता हमारे लिए सबसे अच्छा विकल्प है, चाहे वह समाज में हो या ऊर्जा के विभिन्न स्रोतों में हो। सबके लिए एक जैसा समाधान नहीं हो सकता। विभिन्न देश अलग-अलग रास्तों पर चल रहे हैं, इसलिए ऊर्जा बदलाव की उनकी राह भी अलग-अलग होगी।' उन्होंने कहा कि दुनिया की 17 फीसदी आबादी भारत में रहती है मगर कुल उत्पन्न होने वाले तब तक सभी 28 राज्यों और 8 केंद्रशासित प्रदेशों के 60 शहरों में 220 से अधिक बैटकें हो चुकी होंगी। उन्होंने कहा कि लार्सन 125 देशों के एक लाख से अधिक प्रतिभागी भारतीयों का कौशल देखेंगे। मोदी ने कहा, 'हमारे देश में 1.5 करोड़ से अधिक लोग इन कार्यक्रमों में शामिल हुए हैं या उनके कुछ हिस्से में शिरकत की है।'

प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार का दूसरा कार्यकाल पूरा होने वाला है। 2014 से पहले देश ने कई अस्थिर सरकारें देखी हैं जो बहुत कुछ नहीं कर सकीं। मोदी ने कहा, 'लेकिन पिछले कुछ वर्षों में लोगों ने निर्णायक जनादेश दिया है जिससे स्थिर सरकार, पूर्व अनुमानित नीतियां और सरकार की समग्र दिशा में स्पष्टता आई है।'

जी 20 की बैठकें कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश में कराने पर पाकिस्तान तथा चीन की आपत्ति को



खारिज करते हुए मोदी ने कहा कि देश के हर हिस्से में बैठकें होना स्वाभाविक है। उन्होंने कहा कि भारत की जी20 अध्यक्षता का कार्यकाल जब तक खत्म होगा तब तक सभी 28 राज्यों और 8 केंद्रशासित प्रदेशों के 60 शहरों में 220 से अधिक बैटकें हो चुकी होंगी। उन्होंने कहा कि लार्सन 125 देशों के एक लाख से अधिक प्रतिभागी भारतीयों का कौशल देखेंगे। मोदी ने कहा, 'हमारे देश में 1.5 करोड़ से अधिक लोग इन कार्यक्रमों में शामिल हुए हैं या उनके कुछ हिस्से में शिरकत की है।'

## ‘एक देश, एक चुनाव’ सभी राज्यों पर हमला है: राहुल

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रविवार को कहा कि 'एक देश, एक चुनाव' का विचार भारतीय संघ और इसके सभी राज्यों पर हमला है। कांग्रेस नेता ने 'एक्स' पर अपने पोस्ट में कहा, 'इंडिया भारत है और यह राज्यों का संघ है।' उन्होंने कहा, 'एक देश, एक चुनाव' का विचार भारतीय संघ और इसके सभी राज्यों पर हमला है।'

गांधी का यह बयान एक साथ चुनाव कराने की संभावना पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में सरकार की ओर से एक उच्चस्तरीय समिति गठित करने के बाद आया है। कांग्रेस ने रविवार को कहा कि 'एक देश, एक चुनाव' पर उच्चस्तरीय समिति का वक्त अत्यधिक संदिग्ध है और इसकी संदर्भ शर्तों ने पहले ही इसकी सिफारिशें निषेधित कर दी हैं।



वहीं, कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने 'एक्स' पर शामिल नहीं करने को लेकर भी निशाना साधा। सरकार ने खरगो की जगह राज्यसभा के पूर्व नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद को समिति में शामिल किया है। सरकार ने लोकसभा, राज्य विधानसभाओं, नगर निकायों और पंचायतों के चुनाव एक साथ कराने के मुद्दे पर गौर करने और जल्द से जल्द सिफारिशें देने के लिए शनिवार को आठ सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति की अधिसूचना जारी की।

## लैपटॉप आयात पर रोक का मुद्दा उठाएंगे बाइडन!

पुष्ट 1 का शेष

अमेरिकी व्यापार मंत्री ने कहा था कि इससे सुनिश्चित हो सके कि पाबंदी लागू होने पर भी अमेरिका से भारत को होने वाले निर्यात पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

भारत में आयात होने वाले आईटी हार्डवेयर में अमेरिका की हिस्सेदारी बाकी देशों से बहुत कम है। भारत में इन उत्पादों का सबसे अधिक आयात चीन से होता है। हालांकि ऐपल, डेल, एचपी और सिस्को जैसी अमेरिकी कंप्यूटर और सर्वर कंपनियां इसलिए चिंतित हैं क्योंकि वे चीन तथा दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के अपने कारखानों में बना सामान ही भारतीय बाजार में भेजती हैं। बीते कुछ दशकों में तकनीकी फर्मों ने जटिल और आपस में जुड़ी हुई वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला तैयार की है। अमेरिका आईसीटी क्षेत्र के लिए डिजाइन और नवोन्मेष में अग्रणी है मगर इन उत्पादों का विनिर्माण मुख्य रूप से चीन की विनिर्माण सेवा कंपनियों ठेके पर करती है।

वैश्विक आईटी हार्डवेयर फर्मों की विनिर्माण साझेदार फॉक्सकॉन के 2004 में केवल 47,000 कर्मचारी थे, जो 2014 में



जो बाइडन, अमेरिकी राष्ट्रपति

बढ़कर 11 लाख हो गए थे। इनमें से 99 फीसदी चीन में कार्यरत हैं। भले ही अमेरिकी प्रशासन चीन पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए आईसीटी आपूर्ति श्रृंखला का मूल्यांकन कर रहा है मगर वह चाहता है कि यह बदलाव बिना किसी व्यवधान के सुगमता से हो। दूसरी ओर भारत सरकार ने उद्योग जगत को भरोसा दिया है कि वह कंपनियों के लिए आयात लाइसेंस की प्रक्रिया सुगम बनाएगी।

उद्योग के प्रतिनिधियों से सरकार से नई आयात नीति पर पुनर्विचार का आग्रह किया है। सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग परिषद के अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी जेसन ऑक्समैन ने बिज़नेस स्टैंडर्ड से कहा, 'ऐपल से लेकर डेल और एचपी तक सभी कंपनियां भारत में उत्पाद बनाना

चाहती हैं मगर यह रातोरात नहीं हो सकता। यह पक्का करने के लिए हमें भारत सरकार के साथ मिलकर काम करना होगा ताकि तकनीकी उद्योग भारत में विनिर्माण क्षमताएं बढ़ाकर नागरिकों को नए उत्पाद और सेवाएं देना जारी रख सकें।'


पिछले महीने वैश्विक तकनीकी दिग्गजों का प्रतिनिधित्व करने वाले आईटीआई परिषद, कंज्यूमर टेक्नोलॉजी एसोसिएशन, नैशनल एसोसिएशन ऑफ मैनुफैक्चरर्स सहित आठ उद्योग निकायों ने तई और अमेरिका की वाणिज्य मंत्री जीनारायणमोडो को पत्र लिखकर व्यापार एवं आपूर्ति श्रृंखला भागीदार के रूप में भारत की विश्वसनीयता पर चिंता जताई थी।

पत्र में कहा गया है कि इस नीति की घोषणा से ऑफ कोर्डेस या सार्वजनिक परामर्श नहीं किया गया जबकि इससे व्यापार में बाधा आ सकती है और दोनों देशों में व्यापार और ग्राहकों को नुकसान हो सकता है। उन्होंने आग्रह किया था कि दोनों मंत्री भारत सरकार के साथ अपनी बातचीत में इस मुद्दे को तात्कालिक तौर पर उठाएं और सुनिश्चित करें कि भारत द्वारा उठाया गया कोई भी कदम अंतरराष्ट्रीय प्रतिबद्धता के अनुरूप हो।

## पहला चरण सफल: इसरो

इसरो ने रविवार को कहा कि देश के पहले सूर्य मिशन 'आदित्य एल1' की पृथ्वी की कक्षा से संबंधित पहली प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी कर ली गई है। इसरो के मुताबिक, इस प्रक्रिया को यहाँ स्थित इसरो टेलीमेट्री, ट्रेकिंग और कमांड नेटवर्क (आईएसटीआरएसी) से अंजाम दिया गया। अंतरिक्ष एजेंसी ने यह भी कहा कि 'आदित्य एल1' उपग्रह एकदम ठीक है और यह समान्य ढंग से काम कर रहा है। इसरो ने माइक्रोब्लॉकिंग साइट 'एक्स' पर जारी एक पोस्ट में बताया कि कक्षा संबंधी अगली प्रक्रिया पांच सितंबर, 2023 को भारतीय समयानुसार देर रात लगभग तीन बजे के लिए निष्पत्तित है। इसने कहा, 'आदित्य-एल1 मिशन : उपग्रह एकदम ठीक है और सामान्य ढंग से काम कर रहा है। पृथ्वी की कक्षा से संबंधित पहली प्रक्रिया (ईबीएन#1) आईएसटीआरएसी, बेंगलूर से सफलतापूर्वक निष्पादित की गई। प्राप्त की गई नयी कक्षा 245 किलोमीटर x 22,459 किलोमीटर है।'

भाषा



## सूर्य के बाहरी वातावरण का अध्ययन

'आदित्य एल1' को शनिवार को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित किया गया था। मिशन का लक्ष्य सूर्य-पृथ्वी 'एल1' बिंदु पर भारत की पहली सौर वेधशाला स्थापित कर सूरज के बाहरी वातावरण का अध्ययन करना है। एल1 का मतलब 'लैंग्रेंज प्वाइंट 1' है, जहां अंतरिक्ष यान को स्थापित किया जाएगा। सौर पैनल के सक्रिय होने के बाद उपग्रह ने विद्युत ईंधन पैदा करना शुरू कर दिया। इसरो के अनुसार, आदित्य-एल1 पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर रहकर सूर्य का अध्ययन करेगा। यह दूरी पृथ्वी और सूर्य की कुल दूरी का लगभग एक प्रतिशत है।

**PUBLIC NOTICE FOR THE ATTENTION OF THE PUBLIC SHAREHOLDERS OF**

**FDC LIMITED**  
(CIN: L24239MH1940PLC003176)  
Registered Office: B-8, M.I.D.C. Industrial Estate, Wajuli - 431 130, Dist. Aurangabad, Maharashtra  
Tel: +91 240 255 4407; Fax: +91 240 255 4299  
Correspondence Address: C-3 SKYVISTAS, Near Versova Police Station, 106A, J. P. Road, Andheri (West), Mumbai - 400 053.  
Tel: +91 22 2673 9215 | Website: www.fdcindia.com, Email: varsharani.katre@fdcindia.com  
Contact Person: Ms. Varsharani Katre, Company Secretary and Compliance Officer

**THIS PUBLIC NOTICE IS BEING ISSUED BY FDC LIMITED ("THE COMPANY"), TO THE ELIGIBLE SHAREHOLDERS HOLDING EQUITY SHARES AS ON AUGUST 25, 2023 ("RECORD DATE"), FOR THE BUYBACK OF UPTO 31,00,000 FULLY PAID-UP EQUITY SHARES BY WAY OF A TENDER OFFER THROUGH THE STOCK EXCHANGE MECHANISM ("TENDER OFFER"), FOR CASH AT A PRICE OF RS. 500 (RUPEES FIVE HUNDRED ONLY) ("BUYBACK PRICE") PER EQUITY SHARE FOR AN AGGREGATE AMOUNT NOT EXCEEDING RS. 155,00,00,000 (RUPEES ONE HUNDRED FIFTY FIVE CRORE ONLY) ("BUYBACK SIZE") IN ACCORDANCE WITH THE SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (BUYBACK OF SECURITIES) REGULATIONS, 2018, AS AMENDED ("SEBI BUYBACK REGULATIONS").**

This Public Notice is to be read together with:

- the Public Announcement in connection with the Buyback published on August 11, 2023 in the following Newspapers: i) Business Standard (English - All editions); ii) Business Standard (Hindi - All editions); and iii) Loksatta (Marathi - Chatrapati Sambhajnagar Edition) ("Public Announcement");
- the Letter of Offer dated August 28, 2023 in connection with the Buyback ("Letter of Offer"); and
- the Offer Opening Advertisement in connection with the Buyback of Equity Shares published on August 29, 2023 in the following newspapers: i) Business Standard (English - all editions); ii) Business Standard (Hindi - all editions); and iii) Loksatta (Marathi - Chatrapati Sambhajnagar Edition) ("Offer Opening Advertisement").

The dispatch of the Letter of Offer to the Eligible Shareholders of the Company holding Equity Shares on the Record Date i.e., Friday, August 25, 2023 has been completed by August 29, 2023 through electronic mode to the shareholders whose e-mail ids are available with the Company and through speed post / registered post at the address registered in India for all the remaining shareholders. In the event of accidental omission to dispatch the Letter of Offer or non-receipt of the Letter of Offer by any Eligible Shareholder, they may obtain a copy of Letter of Offer by writing to the Registrar to the Buyback, Link Intime India Private Limited, at their address 'C - 101, 1st Floor, 247 Park, L B S Marg, Vikhroli West, Mumbai - 400 083, Maharashtra', clearly marking the envelope "FDC Limited - Buyback 2023".

The shareholder can participate / tender their Equity Shares of the Company ("Equity Shares") under the Buyback Offer in accordance with the SEBI Buyback Regulations. Please note the following in respect of the Buyback Offer:

1	Date of opening of the Buy-back Offer Period	Thursday, August 31, 2023
2	Date of closing of the Buy-back Offer Period	Wednesday, September 06, 2023
3	Last date and time for receipt of the completed Tender Forms and other specified documents including physical share certificates by the Registrar to the Buyback (APPLICABLE ONLY FOR SHAREHOLDERS TENDERING SHARES IN PHYSICAL MODE)	Friday, September 08, 2023
4	Last date of settlement of bids on the Stock Exchange	Wednesday, September 13, 2023

The Eligible Shareholders may obtain copies of Letter of Offer from the website of the Company at ([www.fdcindia.com](http://www.fdcindia.com)), Securities and Exchange Board of India at ([www.sebi.gov.in](http://www.sebi.gov.in)), the BSE Limited ("BSE") at ([www.bseindia.com](http://www.bseindia.com)) or National Stock Exchange of India Limited ("NSE") at ([www.nseindia.com](http://www.nseindia.com)), or from the website of the Registrar to the Buyback at ([www.linkintime.com](http://www.linkintime.com)) or to the Manager to the Buyback at ([www.sundaecapital.com](http://www.sundaecapital.com)).

**FOR EQUITY SHARES HELD IN PHYSICAL FORM:** Before submitting the Form Acceptance-cum-Acknowledgment, to the Seller Member(s), the Eligible Shareholder must keep a set of (i) original share certificate(s) (ii) valid share transfer form(s) (i.e., form SH-4) duly filled and signed by the transferors (i.e., by all registered Eligible Shareholders in same order and as per the specimen signatures registered with the Company) and duly witnessed at the appropriate place authorizing the transfer in favour of the Company (iii) self-attested copy of the Eligible Shareholder's PAN Card (iv) the Tender Form duly signed (in case the Equity Shares are in joint names, the Tender Form must be signed by all Eligible Shareholders in the same order in which they hold the Equity Shares) and (v) any other relevant documents such as power of attorney, corporate authorization (including board resolution/ specimen signature), notarized copy of death certificate and succession certificate or probated will, if the original shareholder has deceased, etc., as applicable. In addition, if the address of an Eligible Shareholder has undergone a change from the address registered in the Register of Members of the Company, such Eligible Shareholder would be required to submit a self-attested copy of address proof consisting of any one of the following documents: valid Aadhar Card, Voter Identity Card or Passport.

Please refer Clause 20 of the Letter of Offer ("Procedure for Tendering Equity Shares and Settlement") in relation to the detailed procedure for tendering their Equity Shares in the Offer and are required to adhere to and follow the procedure outlined therein.

Every person who desires to participate in the Buyback may do so pursuant to independent inquiry, investigation and analysis and shall not have any claim against the Company or the Manager to the Buyback or the Registrar to the Buyback or the Buyer Broker whatsoever by reason of any loss which may be suffered by such person consequent to or in connection with such Buyback and tender of equity shares through Acquisition Window Facility of NSE, the Designated Stock Exchange, otherwise whether by reason of anything stated or omitted to be stated herein or any other reason whatsoever.

This Public Notice is issued only for the purpose of informing the shareholders who have not received the Letter of Offer, due to failure delivery or postal delay, if any, or otherwise.

MANAGER TO THE BUYBACK	REGISTRAR TO THE OFFER AND INVESTOR SERVICE CENTRE
<p><b>SUNDAE</b></p> <p>Sundae Capital Advisors Private Limited 404, 4th floor, Vaibhav Chambers, Opp. Income Tax Office, Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai - 400 051, Maharashtra, India Tel. No. +91 96 6785 9191 Email: <a href="mailto:fdc.buyback@sundaecapital.com">fdc.buyback@sundaecapital.com</a> Investor Grievance e-mail id: <a href="mailto:grievances.mb@sundaecapital.com">grievances.mb@sundaecapital.com</a> Website: <a href="http://www.sundaecapital.com">www.sundaecapital.com</a> SEBI Regn. No.: INM000012494 Validity Period: Permanent Contact Person: Anchal Lohia / Rajiv Sharma</p>	<p><b>LINKIntime</b></p> <p>Link Intime India Private Limited C-101, 1st Floor, 247 Park, L.B.S. Marg, Vikhroli (West), Mumbai - 400 083, Maharashtra, India Tel. No.: +91 810 811 4949 Fax: +91 22 4918 6060 Email id.: <a href="mailto:fdc.buyback2023@linkintime.co.in">fdc.buyback2023@linkintime.co.in</a> Website: <a href="http://www.linkintime.co.in">www.linkintime.co.in</a> SEBI Regn. No.: INR000040508 Validity Period: Permanent Contact Person: Mr. Surmeet Deshpande</p>
<p>For and on behalf of the Board of Directors of FDC Limited</p> <p>Sd/- Mohan Anand Chandavakar Managing Director (DIN: 00043344)</p>	<p>Sd/- Ashok Anand Chandavakar Executive Director (DIN: 00042719)</p>
<p>Sd/- Varsharani Katre Company Secretary &amp; Compliance Officer FCS 8948</p>	
<p>Place: Mumbai Date: Sep. 02, 2023</p>	

**सिडबी विकास कार्यकारी (SDEs) - 5 Posts**

**मार्केटिंग & प्रमोशन कंसल्टेंट (MPC) - 1 Post**

विस्तृत विवरण के लिए, इच्छुक उम्मीदवार सिडबी [www.sidbi.in](http://www.sidbi.in) और डेवनेटॉक्स की वेबसाइट पर जा सकते हैं।

**इच्छुक उम्मीदवार अपने सीवी/आवेदन पत्र [Jobs.hr@tnmhr.com](http://Jobs.hr@tnmhr.com) को भेज सकते हैं।**

**आवेदन 18.09.2023 को 06:00 PM बजे तक प्रस्तुत किए जा सकते हैं।**

विकास और प्रभाव कार्यक्रम, सिडबी, लखनऊ

